

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256487
SG-DL-E-20082024-256487असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| सं. 212] | दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 154 |
| No. 212] | DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946 | [N. C. T. D. No. 154 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

संख्या-12/2023-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3 (05)/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/694.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, यह सरकार, वित्त विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), जिसे सा.फा.3(15)/वित्त(व्यय-I)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में:—

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (VI) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:—

“बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: ‘क’ ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए ‘ख’ को 1000 रुपये में रखता है। ‘ख’, उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, ‘ग’ से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। ‘ग’ 6% (48 रुपये) की दर से ‘ख’ से राज्य कर लेता है। यदि ‘ख’ 2.5% की दर से ‘क’ से राज्य कर लेता है, तो वह ‘ग’ द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.”

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: ‘क’ ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए ‘ख’ को 1000 रुपये में रखता है। ‘ख’, उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, ‘ग’ से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। ‘ग’ 6% (48 रुपये) की दर से ‘ख’ से राज्य कर लेता है। यदि ‘ख’ 2.5% की दर से ‘क’ से राज्य कर लेता है, तो वह ‘ग’ द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.”

(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (IV) में, शब्दों “टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति” के स्थान पर, शब्द “ किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा ” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(IV) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (V) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,

(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

नोट: मूल अधिसूचना को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), जिसे सा.फा. 3(15)/वित्त(व्यय-I)/2017-18/ डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023—राज्य कर (दर), जिसे सा.फा.3(22)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/ डीएस-I/122, दिनांक 07 फरवरी 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय-I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2024

No. 12/2023-State Tax (Rate)

No. F. 3 (05)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/694.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government’s Notification No. 11/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, —

(A) in the Table,

(i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, the following condition shall be inserted, namely: —

“Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires a motor cab with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If ‘B’ charges ‘A’ state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.”;

(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:—

“Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires a motor cab with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If ‘B’ charges ‘A’ state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.”;

(iii) against serial number 34, —

(a) in column (3), in item (iv), for the words “totalisator or a license to”, the words “licensing a” shall be substituted;

(b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services, —

(i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note:—The principal notification number 11/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 06/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (22)/Fin(Exp-I)/2023-24/DS-I/122, dated 07th Feb, 2024.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor National Capital Territory of Delhi

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)